


३०

# भाग्य और पुरुषार्थ

वा

## तक़दीर और तदबीर



लेखक—

सूरजमान बकील

# बीर सेवा मन्दिर दिल्ली



क्रम संख्या

काल न०

घण्ट

वन्द  
ते

श्री कुलवन्तराय  
घर, अमरावती

नकुड़ निवासी

बाबू मंगलकिरण मल्हीपुर प्रेस  
मल्हीपुर (सहारनपुर)

# भाग्य और पुरुषार्थ

( तकदीर और तदबीर ,

— ~ — ~ — ~ —

भाग्य, दैव, किसमत या तकदीर क्या है और पुरुषार्थ, उच्चम, तदबीर वा कोशिश क्या है ? भाग्य से ही सब कुछ होता है वा जीव की अपनी कोशिश भी कुछु काम कर सकती है ? और अगर दोनों ही शक्तियों के मेल से कार्य होता है तो इनमें कौन बलवान है और कौन निर्बल ? भाग्य की शक्ति कितनी है और पुरुषार्थ की कितनी ? भाग्य का काम क्या है और पुरुषार्थ का क्या ? इन सब बातों को जानना मनुष्य के लिये बहुत ही ज़रूरी है। अतः इस लेख में इन ही सब बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की जायगी।

एकमात्र भाग्य से ही वा एक मात्र पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि मानने को दूषित ठहराते हुये श्री नेमिचन्द्रा चार्य गोमद्वासार कर्मकुण्ड गाथा दृष्टि में लिखते हैं कि, यथार्थ ज्ञानी भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही के संयोग से कार्य की सिद्धि मानते हैं। एक पहिये से जिस प्रकार गाढ़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार भाग्य वा पुरुषार्थ में से किसी एक से ही कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। वन में आग लग जाने पर जैसे अंधा पुरुष दौड़ने भाग्ने की शक्ति रखता हुआ भी वन से बाहर नहीं हो सकता

( २ )

वैसे ही एक लंगड़ा पुरुष देखने की शक्ति रखता हुआ भी बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, अगर अन्धा लंगड़े को अपने कम्बे पर चढ़ा ले, लंगड़ा रास्ता बताता रहे और अन्धा चलता रहे तो दोनों ही बन से बाहर हो जावेंगे। इसी प्रकार भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही के सहारे संसारी जीवों के कार्य की सिद्धि होती है किसी एक से नहीं।

भाग्य और पुरुषार्थ क्या है, इसको श्री विद्यानन्द स्वामी ने अष्टसहस्री में (श्लोक नं० ८८ की टीका में) इस प्रकार स्पष्ट किया है—“पहले बांधे हुए कर्मों का ही नाम दैव (भाग्य या क्रिस्मत) है, जिसको योग्यता भी कहते हैं, और वर्तमान में जीव जो तदवीर, कोशिश या चेष्टा करता है वह पुरुषार्थ है।” भावार्थ, जो पुरुषार्थ किया जा चुका है और जिसका फल जीव भोग रहा है वा भोगेगा वह तो भाग्य कहलाता है और जो उद्यम अंब किया जा रहा है वह पुरुषार्थ कहलाता है। वास्तव में दोनों ही पुरुषार्थ हैं। एक पहला पुरुषार्थ है और दूसरा हाल का पुरुषार्थ।

जीव का असली स्वरूप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति-मान और परमानन्द है, परतन्त्रता, इन्द्रियों की आधीनता राग, द्वेष, भोग—आदि उसका असली स्वभाव नहीं है। परन्तु अनादि काल से यह जीव कर्मों के बन्धन में पड़ा हुआ, अपनी ज्ञानादि शक्तियों को बहुत कुछ खोकर राग, द्वेष और भोग के जाल में फँसा हुआ, शरीर की क्रौद्धता ने वन्द पड़ा हुआ, तरह तरह के दुख भोग रहा है, किन्तु इस प्रकार कर्मों के जाल में फँसा रहकर भी जीव का निज स्वभाव सर्वथा नष्ट नहीं होता है और न सर्वथा

( ३ )

नष्ट हो ही सकता है । \* इस कारण कर्मों के जाल में पूरी तरह फंसे हुए जीवों की भी ज्ञान आदि शक्तियाँ कुछ न कुछ काम ज़क्र करती ही रहती हैं, जिनके कारण ही वे अजीब पदार्थों से अलग पहचाने जाते हैं और जीव कहलाते हैं इन ही बच्ची हुई शक्तियों के द्वारा जीव पुरुषार्थ करके कर्मों के बंधनों को कम और कमज़ोर कर सकता है और होते होते सब ही बंधनों को तोड़कर अपना असत्ती ज्ञानानन्द स्वरूप प्राप्त कर सकता है ।

सब ही जीव अनादि काल से मिथ्यात्व में फंसे हुए संसार में भ्रमण करते फिर रहे हैं । इन ही में से जो हिम्मत करते हैं वे अपनी विचार शक्ति से काम ले कर मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक्त्व ग्रहण करते हैं और फिर और भी ज्यादा हिम्मत कर राग द्वेष से मुँह मोड़, गृह त्याग, मुनि हो जाते हैं और महाब्रतों को पालन कर, तप आदि के द्वारा धातिया कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर अधातिया कर्मों को भी नाशकर सदा के लिये भोक्ता में जा विराजते हैं । इस प्रकार जिन्होंने पुरुषार्थ कर कर्म शत्रुओं को जीत परम पद प्राप्त कर लिया है वे धन्य हैं और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है वे धास फूंस और लकड़ी पत्थर आदि निर्जीव पदार्थों की तरह कर्मों के बहाव में बहते हुए संसार में रुलते हुए तरह तरह की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और बराबर रुलते फिरते रहेंगे जबतक कि हिम्मत करके कर्मों का मुकाबला नहीं करेंगे और उनको दबाने और क्षय करने की कोशिश नहीं करेंगे ।

---

\* देखो गोमद्वार गाथा २९ की संस्कृत टीका और टोडरमल जी का हिन्दी अनुवाद ।

( ४ )

कर्मों का असर दूर करने की तीन हालतें होती हैं एक क्षय अर्थात् कर्म का बिलकुल ही नाश कर देना, दूसरे उपशम अर्थात् कुछ समय के वास्ते असर करने से रोक देना, तो सरे क्षयोपशम अर्थात् कर्म के उस बड़े हिस्से को जो जीव के स्वभाव को सर्वथा घात करता हो, जिना फल दिये ही नाश कर देना, हल्का असर करने वाले हिस्से का फल देने के वास्ते सत्ता में रहना । । यह पेसा ही है जैसा कि शरीर में कोई दुखदाई मवाद इकट्ठा हो जाने पर या कोई दुखदाई वस्तु खा लेने पर, उसको बमन (कौ) वा दस्तों के द्वारा बिलकुल ही निकाल बाहर कर शरीर को शुद्ध कर देना तो क्षय है । कौ, दस्त वा पसीना आदि के द्वारा दुखदाई मवाद को न निकाल कर अर्थात् बीमारी के कारणों को दूर न कर उस बीमारी की तुरन्त की पीड़ा को कुछ समय के वास्ते किसी औषधि के द्वारा दबा देना उपशम है । और किसी औषधि के द्वारा अधिक दुख देने वाले मवाद का तो निकल जाना परन्तु कुछ हल्के से मवाद का बाकी रह जाना जिससे कुछ हल्का सा दुख होता रहे और कुछ मवाद का आगे को असर करने के वास्ते दबा रहना क्षयोपशम है । इस प्रकार कमती बढ़ती अनेक तरीके से कर्मों का मुकाबिला किया जा सकता है । जो पुरुषार्थी हैं वे इन सब ही रीतियों से कर्मों से लड़ाई करते हैं और इनको दबा दबा कर आत्मोन्नति करते चले जाते हैं ।

कर्मों का एक एक हिस्सा नित्य ही फल देकर बेअसर होता रहता है परन्तु मुनि महाराज तप आदि महान्

---

<sup>[१]</sup> देखो गोमद्वासर जीव कांड गाथा १३ की संस्कृत ईका और भ० टोडरमल जी कृत हिन्दी अनुवाद ।

पुरुषार्थों के द्वारा फल देने से पहले ही कर्मों का नाश कर देते हैं # आत्मध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी ईंधन को भस्म करके धूयें वा गर्दं की तरह उड़ा देते हैं। राग द्वेष रूपी चिकनाई से ही कर्म परमाणुओं का बंध आत्मा से होता है। मुनि महाराज अपने तप और ध्यान आदि पुरुषार्थ से राग द्वेष का नाश कर देते हैं जिससे कर्म बंधन की चिकनाई दूर होकर बंधे कर्म अलग होकर आप से आप ही उड़ जाते हैं।

कर्मों के उदय से सुख वा दुख जो भी हो उसमें सुख वा दुख मानने से, राग द्वेष करने से, आगामी को फिर कर्म बंध होता है, इस प्रकार कर्मों का उदय होना और बंधना बराबर होता ही रहता है। मुनि महाराज कर्मों के उदय होने पर उसमें कुछ भी सुख दुख नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं करते हैं, सब हो अवस्था में समभाव रखते हैं, इस कारण उनको आगामी कर्मों का बंध नहीं होता। इस ही प्रकार भारी से भारी परीष्ठों के आने पर भी, कठिन से कठिन आपत्ति के आजाने पर भी वे किसी प्रकार का दुख नहीं मानते हैं, सर्व प्रकार से समभाव ही रखते हैं, इस ही से कर्मों के आने को रोकते हैं।

किसी बाह्य प्रबल कारण के मिलने पर कर्म समय से पहले भी उदय में आ जाते में जिसको उदीरण कहते हैं। बुरे वा भले पहले बांधे हुये कर्मों का ज़ोर वा रस और फल देते रहने का समय भी पीछे के बंधे हुये भले बुरे कर्मों के द्वारा घट बढ़ सकता।

\* देखो भगवती आराधनासार गाथा २८५० की संस्कृत टीका अपराजित सुरिकृत, तथा लघ्विसार की टीका-टोडरमल जी कृत में गाथा ३९२ के नीचे का प्रश्नोत्तर।

है, यहाँ तक कि सुख देने वाला सातावेदनीय कर्म बदलकर दुख देने वाला असाता रूप हो जाय, और दुख देने वाला असाता कर्म बदलकर सुख देने वाला साता रूप हो जाय अर्थात् पुन्य कर्म बदलकर पाप रूप हो जाय और पापकर्म बदलकर पुन्य रूप हो जाय। यह सब पुरुषार्थ को ही महिमा है जिससे सब ही कुछ हो सकता है। कर्मों के इस प्रकार अदलने बदलने को संकलण कहते हैं । †

पुरुषार्थ के छारा कर्मों का पैदा होना और बंधना भी बंद हो जाता है जिसको संवर कहते हैं। कर्मों के आठ भेद हैं, जिनके भेद प्रभेद अर्थात् उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं। बिना किसी प्रकार का चारित्र धारण किये एक मात्र मिथ्यात्व के दूर होने से ही कर्मों की १६ प्रकृतियों का बंध होना बंद हो जाता है, फिर अनन्तानुबंधी कषाय दूर होकर सम्यकी ही जाने से अन्यभी २५ प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है, इस प्रकार चौथे गुणस्थानी अव्रति सम्यग्दृष्टि को ४१ कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, इतना भारी काम एक मामूली से पुरुषार्थ से ही होने लगता है, फिर अणुव्रती श्रावक होने पर अन्यभी १० कर्म प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है, इस ही प्रकार पुरुषार्थ कर ज्याँ ज्याँ आगे बढ़ा जाता है त्यों त्यों अन्य भी अनेक कर्मों का बंध होना रुकता जाता है और अन्त को राग द्वेष के सर्वथा नाश हो जाने पर सब ही कर्मों का बंध होना रुक जाता है, यह सब पुरुषार्थ की ही महिमा है।

पुरुषार्थ हीन के सब ही कार्य भ्रष्ट होते हैं, और पुरुषार्थी के सब ही कार्य सिद्ध होते हैं। यह बात सब ही सांसारिक कार्यों में भी स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य अपने

---

† देखो गोमद्वासार कर्म कांड गाथा ४३८, ४३९

पुरुषार्थ से खेती करके तरह तरह के अनाज, तरह तरह के फल पैदा करता है; एक बृक्ष की दूसरे बृक्ष के साथ क्रलम लगा कर उनके फलों को अधिक स्वादिष्ट और रसभरे बनाता है; अनाज को पीस-पोकर और आग से पका कर सत्तर प्रकार के सुस्वादु भोजन बनाता है। मिट्ठी से इट्टे बनाकर, फिर उनको आग में पकाकर आकाश से बातें करने वाले बड़े बड़े ऊँचे महल चिनता है, हजारों प्रकार के सुन्दर-सुन्दर बख्त बनाता है, लकड़ी, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि ढूँढ कर उनसे अनेक चमत्कारी वस्तुयें धड़ लेता है; कागज बनाकर पुस्तकें लिखता है और चिठ्ठियां भेजता है; तार, रेल, मोटर, इंजिन, जहाज, घड़ी, घंटा, फोन, सिनेमा आदिक अनेक प्रकार की अद्भुत कलें बनाता है और नित्य नई से नई बनाता जाता है; यह सब उसके पुरुषार्थ की ही महिमा है। पश्च इस प्रकार का कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इस ही कारण उनको यह सब वस्तुयें प्राप्त नहीं होती हैं। उनका भाग्य वा कर्म उनको ऐसी कोई वस्तु बनाकर नहीं देता है, घास-फूस जीव जन्तु आदि जो भी वस्तु स्वयं पैदा हुई मिलती हैं उनपर ही गुजारा करना पड़ता है, बरसात का सारा पानी, जेठ असाह की सारी धूप, शीत काल का सारा पाला अपने नंगे शरीर पर ही भेलना पड़ता है, और भी अन्य अनेक प्रकार के असाध्य दुख पुरुषार्थ हीन होने के कारण सहने पड़ते हैं।

इसके उत्तर में शायद हमारे कुछ भाई यह कहने लगें कि मनुष्यों को उनके कर्मों ने ही तो ऐसा ज्ञान और ऐसा पुरुषार्थ करने का बल दिया है जिससे वे ऐसी ऐसी अद्भुत वस्तुयें बना सकते हैं, पश्चओं को उनके कर्मों ने ऐसा ज्ञान और पुरुषार्थ नहीं दिया है, इस कारण वे नहीं बना सकते हैं। मनुष्यों को उनके कर्म यदि ऐसा ज्ञान और

उद्यम करने की शक्ति न देते तो वे भी कुछ न कर सकते, यह सब भाग्य वा कर्मों को ही तो महिमा है जिससे मनुष्य ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं। परन्तु प्यारे भाइयो ! क्या आपके ख्याल में तोर्यकर भगवान को जो केवलज्ञान प्राप्त होता है, जिससे तीनों लोक के सब ही पदार्थ उनको बिना इन्द्रियों के सहारे के साक्षात् नज़र आने लग जाते हैं तो क्या केवल ज्ञान की यह महान् शक्ति भी कर्मों की ही की हुई होती है ? नहीं ऐसा नहीं है। यह सब शक्ति तो उनको उनके पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों के नाश करने से ही प्राप्त होती है, कर्मों की दी हुई नहीं होती है। कर्म तो जीव को कुछ देते नहीं किन्तु बिगड़ते ही हैं। कर्मों का कार्य तो जीव को ज्ञान वा विचार शक्ति वा अन्य किसी प्रकार का बल देना नहीं है, किन्तु इसके विपरीत कर्मों का काम तो जीव के ज्ञान और बल वीर्य को नष्ट कर देने का ही है। ज्ञान और बल वीर्य तो जीव का निज स्वभाव है, जितना जितना भी किसी जीव का बलवीर्य नष्ट भ्रष्ट और कम हो रहा है वह सब उसके कर्म शत्रुओं का ही तो काम है, और जितना जितना जिस किसी जीव में ज्ञान और बल वीर्य है वह उसका अपना असली स्वभाव है, जिसको नष्ट-भ्रष्ट करने के लिये कर्मों का काबू नहीं चल सका है। इस कारण मनुष्य अपने ज्ञान और विचार बल से जो यह लालौं करोड़ों प्रकार का सामान बनाता है वह सब अपनी निज शक्ति से ही बना रहा है, कर्मों की दी हुई शक्ति से नहीं। कर्मों का काबू चलता तो, वे तो उसकी यह शक्ति भी छोड़ लेते और कुछ भी न बनाने देते।

मनुष्यों की बनिसदत पशुओं पर कर्मों का अधिक काबू चलता है, इसी बास्ते उन बेचारों को यह कर्म उनकी ज़खरतों का कुछ भी सामान नहीं बनाने देते हैं। कर्म तो

जीव के शत्रु हैं, इस कारण उनका काम तो एक मात्र विगाड़ने का ही है—सँवारने का नहीं। भेद सिफ़्र इतना ही है कि जब कोई कर्म हमको अधिक कावू में करके अधिक दुख पहुँचाता है तो उसको हम पाप कर्म कहते हैं और जब कोई कर्म कमज़ोर होकर हम पर कम कावू पाता है जिससे हम अपने असली क्षान गुण और बल वीर्य से कुछ पुरुषार्थ करने के योग्य हो जाते हैं और कम दुख उठाते हैं, तो इसको हम पुण्य कर्म कहने लग जाते हैं और सुश होते हैं।

जिस प्रकार बीमारी मनुष्य को दुख ही देती है सुख नहीं दे सकती है, उसी प्रकार कर्म भी जीव को दुःख ही देते हैं सुख नहीं दे सकते हैं। बीमारी भी जब मनुष्य को अधिक दबा लैती है, उठने बैठने भी नहीं देती है, होशहास भी खो देती है, खाना पीना भी बन्द कर देती है, नींद भी नहीं आती है, रात दिन अस्थापीड़ा ही होती रहती है, तब वह बीमारी बहुत बुरी और महानिन्दा कही जाती है; परन्तु जब योग्य औषधि करने से वह अस्था बीमारी कम होकर सिफ़्र थोड़ी-सी कमज़ोरी आदि रह जाती है, मनुष्य अपने काठीबार में लगने योग्य हो जाता है,, तो सूशियां मनाई जाती हैं, परन्तु यह सूशी उसको बीमारी ने नहीं दी है, किन्तु बीमारी के कम होने से ही हुई है। इसी प्रकार कर्म भी जब जीव को अच्छी तरह जकड़ कर कुछ भी पुरुषार्थ करने के योग्य नहीं रहने देते हैं तो वे खोटे व पापकर्म कहलाते हैं और जब जीव अपने शुभ परिणामों के द्वारा करायी की मंद करके कर्मों को कमज़ोर कर देता है जिससे वह पुरुषार्थ करने के योग्य होकर अपने सुख की सामग्री जुटाने लग जाता है तो वह उन हल्के कर्मों को शुभ व पुण्य कर्म कहने लग जाता है।

## कर्म बन्धन

कर्म क्या हैं, जीव के साथ कैसे उनका सम्बन्ध होता है और वे क्या कार्य करते हैं, इसका सारांश रूप कथन इस प्रकार है कि रागद्वेष के करने से आत्मा में एक प्रकार का ऐसा संस्कार पड़ जाता है जिससे फिर दोबारा रागद्वेष पैदा हो, उस दोबारा पैदा हुवे रागद्वेष से फिर रागद्वेष पैदा होता है, इस प्रकार एक चक्रपता चलता रहता है। इसही को कर्म बन्धन होना कहते हैं। मिठी के बतन बनाने के बास्ते कुम्हार चाक को डंडे से घुमाता है, परन्तु डंडा और कुम्हार दोनोंके अलग हो जाने पर भी कुछ देर तक चाक घूमता ही रहता है, डंडे के द्वारा घुमाने से चाक में घूमते रहने का संस्कार पड़ जाता है इस ही कारण घुमाना बन्ध करने पर भी वह चाक कुछ देर तक घूमता ही रहता है, इस हो प्रकार डोरी लपेट कर जब लट्ठू घुमाया जाता है तो डोरी अलग होने पर भी बहुत देर तक वह लट्ठू आप से आप ही घूमता रहता है, इसी का नाम संस्कार हो जाना वा आदत पड़ जाना है। बार बार किसी बात को करते रहने से जो आदत पड़ जाती है, वह पक्की होकर छूटनी मुश्किल हो जाती है। भंग, चरस वा शराब आदि किसी नशे की आदत को तो छोड़ने का इरादा करने पर भी मुश्किल से ही छूटती है, नशे की बात तो दूर रही, जिन लोगों को खाने में तेज़ मिरच डालकर चटपटा खाना खाने की आदत ही जाती है वे उसके खाने से नुकसान होने पर भी उसका खाना नहीं छोड़ते हैं, यहां तक कि तुलसी आंखों भी खाते हैं, जिससे और भी ज्यादा आंख खड़कती है, तड़पते हैं, चिलाते हैं और सिर पीटते हैं, जानते हैं कि मिरच खाने से ही यह तकलीफ़ बढ़ी है परन्तु फिर भी

खाते हैं और दुख उठाते हैं। यह ही हाल राग द्वेष आदि विषय कथाओं का है जिनके करने से भी किर २ बैसा ही करने का संस्कार पड़ता है और बार बार करते रहने से वह संस्कार ज्यादा २ मजबूत होकर छूटना मुश्किल हो जाता है, यह ही कर्म बंधन है जिसके चक्र में सब ही संसारी जीव पड़े हुए हैं। इस ही से जीव अपनी असली चाल भूलकर, इन रागद्वेष की संस्कारों के अनुसार बिलकुल ही उलटी पुलटी चाल चल रहा है।

परन्तु किसी भी वस्तु में कोई बिगाड़ बगैर किसी दूसरी वस्तु के मिलने के नहीं आ सकता है, यह पदार्थ-विद्या का अटल सिद्धान्त है। देह में भी रोग तब ही उत्पन्न होता है जब कोई पर पदार्थ (foreign matter, गैर माहा) आ घुसता है। घड़ी भी ठीक चलते २ तब ही ग़लत चाल चलने लगती है जबकि उसके पुँजों में मैल आ जाता है पुँजों को आसानी से चलते रहने के लिये उनको कुछ तेल आदि कोई चिकनाई लगानी पड़ती है, घड़ी की डिविया या बक्स के अन्दर थोड़ी बहुत हवा तो ज़हर होती ही है, उस हवा में हल्का सा जो कुछ गर्दा मिला हुआ होता है, उसके बहुत ही बारीक कण पुँजों की चिकनाई के कारण उन पर जम जाते हैं और उनकी चाल को बिगाड़ देते हैं। इस ही प्रकार राग द्वेष के कारण आत्मा में भी किसी प्रकार का हलन चलन होने से देह के अन्दर के अति सूक्ष्म पुनर्जल परमाणु जो आत्मा में घुल मिल सकते हैं, वह उसमें मिल जाते हैं, यह ही पर पदार्थ है जिसके कारण आत्मा में बिगाड़ आता है। रागद्वेष ही इसमें चिकनाई का काम करते हैं। रागद्वेष की पुँजों चिकनाई के बिना कोई भी किसी प्रकार का मैल आत्मा को नहीं लग सकता है। मैल भी कहीं से लैंच कर लाना नहीं पड़ता है, जिस प्रकार घड़ी के अन्दर की हवा में मिला

हुवा गर्दा ही पुजों को चिपट कर उसकी चाल को बिगड़ा देता है , बिल्कुल इस ही तरह शरीर के अन्दर जो भी अति सूक्ष्म पुदल परमाणु मौजूद होते हैं वह ही राग द्वेष रूपी चिकनाई के कारण आत्मा से चिपटकर उसकी चाल को बिगड़ा देते हैं; यह ही कर्म बंधन है जो दो प्रकार का कहा जाता है । आत्मा के अन्दर राग द्वेष का उत्पन्न होना तो भाव बंध कहलाता है और इस भाव बंध अर्थात् राग द्वेष के उत्पन्न होने के कारण उसकी चिकनाई से देह के अन्दर आत्मा के नज़दीक के जो अति सूक्ष्म पुदल परमाणु मैल के तौर पर आत्मा में लग जाते हैं वे द्रव्य बंध कहलाता है ! इस प्रकार आत्मा में मैल के लग जाने अर्थात् बिगड़ के आ जाने से आत्मा की चाल में ख़राबी आकर फिर राग द्वेष पैदा होता है और उस राग द्वेष से फिर दोबारा सूक्ष्म पुदल परमाणुओं का मैल आत्मा में जम जाता है, जिससे फिर राग द्वेष उत्पन्न होता है, इस प्रकार एक चक्र से चलता रहता है, भावकर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म पैदा होते रहते हैं, जिससे रहट की घड़ी की तरह यह चक्र चला ही करता है ।

ऊपर के इस कथन से यह बात साफ़ खुल जाती है कि कर्म कोई ख़ास वस्तु नहीं है जो कहीं से ढूँढ़ कर लाई जाती हो या आप ही कहीं से आती हो, किन्तु घड़ी के पुजों में चिपटने वाले उस मामूली गर्दे के समान जो घड़ी के अन्दर की हवा में मिला हुआ हो और घड़ी के पुजों से चिपटकर घड़ी की चाल को बिगड़ा देता हो, आत्मा में भी राग द्वेष रूपी चिकनाई लग जाने से देह के अन्दर की हवा में मिले हुवे गर्दे के बहुत बारीक कण जो अति सूक्ष्म होने के कारण आत्मा में घुल मिल सकते हैं, वह ही

आता है, अन्य भी अनेक प्रकार के अलटन-पलटन होते रहते हैं। संसार का यह सारा चक्र हमारे कर्मों के आधार नहीं चल रहा है, किन्तु घड़ियाल के घन्टों की तरह सब कार्य संसार की अनन्तानन्त वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही हो रहा है। परन्तु हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी रात चाहते हैं कभी दिन, कभी जाड़ा चाहते हैं कभी गर्मी, कभी बादल चाहते हैं, कभी धूप, कभी वर्षा चाहते हैं कभी सूखा। इसी प्रकार संसार के अन्य भी सभी कामों को अपनी इच्छा के अनुसार ही होते रहना चाहते हैं, परन्तु यह सद्गुण संसार हमारे आधीन न होनेसे जब यह कार्य हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो, हम दुःखी होते हैं और अपने भाग्य व कर्मों को ही दोष देने लग जाते हैं। किन्तु इसमें हमारे कर्मोंका क्या दोष? भूल तो हमारी है जो हम सारे संसार को, जो न हमारे आधीन है न हमारे कर्मोंके ही आधीन, अपने ही अनुकूल चलाना चाहते हैं, नहीं चलता है तो दुःखी होते हैं।

रेलमें सफर करते समय इधर उधरसे आ-आकर अनेक मुसाफिर बैठते रहते हैं, कोई उत्तरता है कोई चढ़ता है, यो ही तांतासा लगा रहता है—तरह तरह के पुरुषोंसे संयोग होता रहता है, किसीसे दुख मिलता है, किसीसे सुख। कोई बामार है, हरदम खासता है थूकता है, छोंकता है, जिससे हमको दुख होता है। किसी के शरीर और कपड़ों में बू आरही है, जिससे हमारा नाक फटा जा रहा है; कोई सुगन्ध लगाये हुये हैं, जिसकी महक से जी झुश होता है; कोई सुन्दर गाना गाता है, कोई दूसरे मुसाफिरों से लड़ रहा है, इन सब ही के भले बुरे कृत्यों से कुछ न बुव्ह दुख सुख हमको भी भोगना ही पड़ता है। कारण इसका एकमात्र यह ही है कि रेल में सफर करने के कारण हमारा उनका संयोग हो गया है। हमारे कर्म हमको दुख सुख देने के बास्ते उनको उनके धरों से खँचकर नहीं ले आये हैं, हमारी ही तरह वह सब भी अपनी २

( १८ )

ज़रूरतों के कारण ही यहां रेल में सफर करने को आये हैं। हमारे कर्मों का तो कुछ भी ज़ोर उन पर नहीं चल सकता है और न उनके कर्मों का कुछ ज़ोर हमारे अपर ही हो सकता है।

इस ही प्रकार नरक स्वर्ग आदि अनेक गतियों से आ आकर जीव एक कुटम्ब में, एक नगर में और एक देशमें इकट्ठे हो जाते हैं, वह भी सब अपने अपने कर्मानुसार ही आ-आ कर जन्म लेते हैं, हमारे कर्म उनको खैंच कर नहीं ला सकते हैं। रेलके मुसाफिरों की तरह एक स्थान में इकट्ठा होकर रहने के संयोग से उनके द्वारा भी हमारा अनेक प्रकार का बिगाड़ संबार होता है जो हमें फेलना ही पड़ता है। दृष्टान्त रूप मान लीजिये कि एक हमारे पड़ौसी के यहां बेटे का विवाह है। जिसके कारण रात दिन गाजा बाजा, गाना नाचना, खाना खिलाना आदि अनेक उत्सव होते रहते हैं, उनके इस शोर-गुलसे रातको हमको नींद भर सोना नहीं मिलता है, जिससे हम दुखी होते हैं; तो क्या हमारे कर्मों ने ही हमको यह घोड़ा सा दुख पहुँचाने के बास्ते पड़ौसी के यहां उसके बेटे का विवाह रचवा दिया है?

ऐसा ही दूसरा दृष्टान्त यह हो सकता है कि पड़ौसीके यहां कोई जवान मौत हो गई है, जिससे उसकी जवान विधवा रात दिन विलाप करती है, उसके इस विलापसे हमारी नींदमें खलल पड़ रहा है, तो क्या हमारे कर्मों ने ही हमारी नींदमें खराबी डालनेके बास्ते जवान पड़ौसी को मार कर उसकी जवान छोकीको विधवा बनाया है? नहीं, ऐसा मानना तो बिलकुल ही हँसी की बात होगी। असल बात तो यह ही माननी पड़ेगी कि व्याह बालेके यहां भी उसके अपने ही कर्मों से विवह ग्राम्भ हुआ और मरने वाले के यहां भी उसके अपने ही कर्मोंसे मौत हुई, परन्तु पड़ौसमें रहने के संयोग से वह हमारी नींद में खलल डालनेके निमित्त ज़रूर हो गये।

इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट करनेके लिये दूसरा दृष्टान्त यह हो

( १६ )

सकता है कि कुछ वर्ष पहले यहां हिन्दुस्तान में लाखों मन चीनी जावा से आती थी और लूब मंहगी विकती थी, जिससे हर साल करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान का जावा चला जाता था, हिन्दुस्तान कंगाल और वह मालामाल होता जाता था, लेकिन अब कुछ सालसे हिन्दुस्तानियों ने यहां ही चीनी बनानी शुरू कर दी है, जिससे यहां चीनी भी सस्ती हो गई है और रुपया भी यहां का यहां ही रहने लग गया है, परन्तु जावावालोंकी चीनों की बिक्री बन्द होनेसे उनके सब कारखाने पट होगये हैं, तो क्या जावावालों के खोटे कर्मोंने ही जावावालों को हानि पहुँचानेके बास्ते हिन्दुस्तानवालों से चीनी बनानेके कारखाने खुलवा दिये हैं ? नहीं एसा नहीं माना जासकता है, यहां वालोंने जो कारखाने खोले हैं वह तो अपनेही कर्मोंसे वा अपने ही पुरुषार्थसे खोले हैं, जावावालों के खोटे कर्मों से वह क्यों खोलते, हां कारखाने खोलकर जावावालों को नुकसान पहुँचाने के निमित्त कारण वह ज़रुर हो गये हैं ।

### अकाल मृत्यु

निमित्त कारण जीवों को कैसा नाच नचाता है और क्या-से-क्या कर डालता है, यह बात अकाल मृत्युके कथनसं बहुत अच्छी तरह समझ में आसकता है । कुंद कुंद स्वामी ने भाव पाहुड़ की गाथा नं० २५, २६ में अकाल-मृत्यु का कथन इस प्रकार किया है—हे जीव ! मनुष्य और तिर्यच पर्यायमें तूने अनेक बार अकाल मृत्यु के द्वारा महा दुख उठाया है, विष के खाने से वा चिषैले जानवरों के काटे जानेसे, किसी असृष्ट दुखके आपड़नेसे, अधिक खून निकल जानेसे, किसी भारी भय-से, हतियार के घातसे, महा संक्लेशरूप परिणामों के होनेसे—अर्थात् अधिक शोक माननेसे वा अधिक क्रोध करनेसे—आहार न मिलनेसे, सांसके रुकनेसे, बरफमें गलजानेसे, आगमें जलजानेसे, पानीमें झुबजानेसे, वृक्ष वा अन्य किसी

( २० )

ऊंचे स्थानसे गिरपड़नेसे, शरीरमें चोट लगनेसे, अन्य भी अनेक कारणसे अकाल मृत्यु होती रहती है। इसी प्रकार गोमद्वासार कर्मकांड की निष्ठा गाथा ५७ में भी विष, रक्त-न्यय, भय, शख्खात, महावेदना, सांस रुकना, आहार न मिलना आदि कारणोंसे बंधो आयुका छीजना अर्थात् समय से पहले ही मरण होजाना लिखा है।

विसवेयणरत्तकवयव्यसत्थग्गहणसंकिलेसेहि ।

उत्सासाहाराणं गिराहदो छिज्जदे आऊ ॥५७॥

तस्त्वार्थसूत्र अन्याय २ सूत्र ५३ का भाष्य करते हुए भी अकलीक स्वामी ने राजत्रातिक में और विद्यानन्द स्वामी ने श्लोक वार्तिकमें मरणकाल से पहले मृत्यु का हो जाना सिद्ध किया है और लिखा है कि अकाल मृत्यु के रोकने के बास्ते आयुर्वेद में रसायन आदिक बर्तना लिखा है जिससे भी अकाल मृत्यु सिद्ध है। इस ही प्रकार अन्य शारीरिक रोगों के दूर करने के बास्ते भी औषधि आदिक वाहा निमित्त कारणों का जुटाना ज़रूरी चताया है। भगवती आराधनासार गाथा ८२३ का अर्थ करने हुये पंडित सदासुख जो ने अकाल मृत्यु का वर्णन इस प्रकार किया है—

कितनेक लोग पेसे कहे हैं, आयु का स्थिति-बंध किया सो नहीं छिद्रे है, तिनकं उत्तर कहै है—जो आयु नहीं ही छिद्रता तो विष भद्रण तैं कौन पराडमुख होता अर उखाल (कँ कराना) विष पर किस बास्ते देते, अर शख्ख का धाततै भय कौन बास्ते करते अर सर्प, हंस्ती, सिंह, दुष्ट मनुष्यादिकम को दूरहीतै कैसे परिहार करते, अर नदी समुद्र कूप वाषिका तथा अग्नि की ज्वाला में पतन तै कौन भयमीत होता। जो आयु पूर्ण हुआ बिना मरण ही नहीं तो रोगादिक का इतरज काहेकू करते, तातै यह निश्चय आगू—जो आयु

आता है, अन्य भी अनेक प्रकार के अलटन-पलटन होते रहते हैं। संसार का यह सारा चक्र हमारे कर्मों के आधार नहीं चल रहा है, किन्तु घड़ियाल के घन्टों की तरह सब कार्य संसार की अनन्तानन्त वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही हो रहा है। परन्तु हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी रात चाहते हैं कभी दिन, कभी जाड़ा चाहते हैं कभी गर्मी, कभी बादल चाहते हैं, कभी धूप, कभी वर्षा चाहते हैं कभी सूखा। इसी प्रकार संसार के अन्य भी सभी कार्मों को अपनी इच्छा के अनुसार ही होते रहना चाहते हैं, परन्तु यह सारा संसार हमारे आधीन न होनेसे जब यह कार्य हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो, हम दुःखी होते हैं और अपने भाग्य व कर्मों को ही दोष देने लग जाते हैं। किन्तु इसमें हमारे कर्मोंका क्या दोष? भूल तो हमारी है जो हम सारे संसार को, जो न हमारे आधीन है न हमारे कर्मोंके ही आधीन, अपने ही अनुकूल चलाना चाहते हैं, नहीं चलता है तो दुःखी होते हैं।

रेलमें सफर करते समय इधर उधरसे आ-आकर अनेक मुसाफिर बैठते रहते हैं, कोई उत्तरता है कोई चढ़ता है, यों ही तांतासा लगा रहता है—तरह तरह के पुरुषोंसे संयोग होता रहता है, किसीसे दुख मिलता है, किसीसे मुख। कोई बामार है, हरदम खासता है थ्रूकता है, छूंकता है, जिससे हमको दुख होता है। किसी के शरीर और कपड़ों में बू आरही है, जिससे हमारा नाक फटा जा रहा है; कोई सुगन्ध लगाये हुये हैं, जिसकी महक से जी झुश होता है; कोई सुन्दर गाना गाता है, कोई दूसरे मुसाफिरों से लड़ रहा है, इन सब ही के भले दुरे कूलों से कुछ न कुछ दुख मुख हमको भी भोगना ही पड़ता है। कारण इसका एकमात्र यह ही है कि रेल में सफर करने के कारण हमारा उनका संयोग हो गया है। हमारे कर्म हमको दुख मुख देने के बास्ते उनको उनके घरों से लैंचकर नहीं ले आये हैं, हमारी ही तरह वह सब भी अपनी २

( १८ )

झर्रतों के कारण ही यहां रेल में सफर करने को आये हैं। हमारे कर्मों का तो कुछ भी ज़ोर उन पर नहीं चल सकता है और न उनके कर्मों का कुछ ज़ोर हमारे पापर ही हो सकता है।

इस ही प्रकार नरक स्वर्ग आदि अनेक गतियों से आ आकर जोब एक कुटम्ब में, एक नगर में और एक देशमें इकट्ठे हो जाते हैं, वह भी सब अपने अपने कर्मानुसार ही आ-आ कर जन्म लेते हैं, हमारे कर्म उनको खैंच कर नहीं ला सकते हैं। रेलके मुसाफिरों की तरह एक स्थान में इकट्ठा होकर रहने के संयोग से उनके द्वारा भी हमारा अनेक प्रकार का विगड़ संबार होता है जो हमें भेलना ही पड़ता है। दृष्टान्त रूप मान लीजिये कि एक हमारे पड़ौसी के यहां बेटे का विवाह है। जिसके कारण रात दिन गाजा बाजा, गाना नाचना, खाना खिलाना आदि अनेक उत्सव होते रहते हैं, उनके इस शोर-गुलसे रातको हमको नींद भर सोना नहीं मिलता है, जिससे हम दुखी होते हैं; तो क्या हमारे कर्मों ने ही हमको यह थोड़ा सा दुख पहुँचाने के बास्ते पड़ौसी के यहां उसके बेटे का विवाह रचवा दिया है ?

ऐसा ही दूसरा दृष्टान्त यह हां सकता है कि पड़ौसीके यहा काँई जवान मौत हो गई है, 'जिससे उसकी जवान विधवा रात दिन विलाप करती है, उसके इस विलापसे हमारी नींदमें खलल पड़ रहा है, तो क्या हमारे कर्मों ने ही हमारी नींदमें खराबी डालनेके बास्ते जवान पड़ौसी को मार कर उसकी जवान लूंको विधवा बनाया है ? नहीं, ऐसा मानना तो बिल्कुल ही हँसी की बात होगी। असल बात तो यह ही माननी पड़ेगी कि व्याह बालेके यहां भी उसके अपने ही कर्मों से विवह प्रारम्भ हुआ और मरने वाले के यहां भी उसके अपने ही कर्मोंसे मौत हुई, परन्तु पड़ौसमें रहने के संयोग से वह हमारी नींद में खलल डालनेके निमित्त ज़र्रर हो गये।

इसको और भी ज्यादा स्पष्ट करनेके लिये दूसरा दृष्टान्त यह हो

सकता है कि कुछ वर्ष पहले यहां हिन्दुस्तान में लाखों मन चीनी जावा से आती थी और खूब मंहगी बिकती थी, जिससे हर साल करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान का जावा चला जाता था, हिन्दुस्तान कंगाल और वह मालामाल होता जाता था, लेकिन अब कुछ सालसे हिन्दुस्तानियों ने यहां ही चीनी बनानी शुरू कर दी है, जिससे यहां चीनी भी सस्ती हो गई है और रुपया भी यहां का यहां ही रहने लग गया है, परन्तु जावावालोंकी चीनी की बिक्री बन्द होनेसे उनके सब कारखाने पट हो गये हैं, तो क्या जावावालों के खोटे कर्मोंने ही जावावालों को हानि पहुँचानेके बास्ते हिन्दुस्तानवालों से चीनी बनानेके कारखाने खुलवा दिये हैं? नहीं एसा नहीं माना जासकता है, यहा वालोंने जो कारखाने खोले हैं वह तो अपनेही कर्मोंसे वा अपने ही पुरुषार्थसे खोले हैं, जावावालों के खोटे कर्मोंसे वह क्यों खोलते, हां कारखाने खोलकर जावावालों को नुकसान पहुँचानेके निमित्त कारण वह ज़रूर हो गये हैं।

### अकाल मृत्यु

निमित्त कारण जीवों को कैसा नाच नचाता है और क्या-सं-क्या कर डालता है, यह बात अकाल मृत्युके कथनसं बहुत अच्छी तरह समझ में आसकता है। कुंद कुंद स्वामी ने भाव पाहुड़ की गाथा नं० २५, २६ में अकाल-मृत्यु का कथन इस प्रकार किया है—हे जीव ! मनुष्य और तिर्थंच पर्यायमें तूने अनेक बार अकाल मृत्यु के द्वारा महा दुख उठाया है, विष के ज्ञाने से वा विषैले जानवरों के काटे जानेसे, किसी असश्य दुखके आपड़नेसे, अधिक खून निकल जानेसे, किसी भारी भय-से, हतियार के घातसे, महा संक्लेशरूप परिणामों के होनेसे—अर्थात् अधिक शोक माननेसे वा अधिक क्रोध करनेसे—आहार न मिलनेसे, सांसके रुकनेसे, बरफ़में गलजानेसे, आगमें जलजानेसे, पानीमें ढूबजानेसे, वृक्ष वा अन्य किसी

( २० )

ऊंचे स्थानसे शिरपड़नेसे, शरीरमें चोट लगनेसे, अन्य भी अनेक कारणसे अकाल मृत्यु होती रहती है। इसी प्रकार गोमद्धसार कर्मकांड की निज्ञ गाथा ५७ में भी विष, रक्त-क्षय, भय, शखघात, महावेदना, सांस रुकना, आहार न मिलना आदि कारणोंसे बंधो आयुका छीजना अर्थात् समय से पहले ही मरण होजाना लिखा है।

विसवेयणरत्तकवयन्नयसत्थग्गहणसंकिलेसेहि ।

उसासाहाराणं शिरोहदो छिज्जदे आऊ ॥५७॥

तत्त्वार्थसूत्र आच्याय २ सूत्र ५३ का भाष्य करते हुए श्री अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में ओर विद्यानन्द स्वामी ने श्लोक वार्तिकमें मरणकाज से पहले मृत्यु का हो जाना सिद्ध किया है और लिखा है कि अकाल मृत्यु के रोकने के बास्ते आयुर्वेद में रसायन आदिक बर्तना लिखा है जिससे भी अकाल मृत्यु सिद्ध है। इस ही प्रकार अन्य शारीरिक रोगों के दूर करने के बास्ते भी औषधि आदिक वाह्य निमित्त कारणों का जुटाना ज़रूरी बताया है। भगवती आराधनासार गाथा ८२३ का अर्थ करते हुये पंडित सदासुख जी ने अकाल मृत्यु का वर्णन इस प्रकार किया है—

कितनेक लोग ऐसे कहे हैं, आयु का स्थिति-बंध किया सो नहीं छिदे है, तिनकूं उत्तर कहै है—जो आयु नहीं ही छिदता तो विष भक्षण तैं कौन पराड़मुख होता अर उखाल (कैं कराना) विष पर किस बास्ते देते, अर शख का घाततैं भय कौन बास्ते करते अर सर्प, हस्ती, सिंह, दुष्ट मनुष्यादिकल को दूरहीतैं कैसे परिद्वार करते; अर नदी समुन्द्र कूप वाणिका तथा अग्नि की ज्वाला में पतन तैं कौन भयभीत होता । जो आयु पूर्ण हुआ बिना मरण ही नहीं तो रोगादिक का इलाज काहेकूं करते, तातैं यह निश्चय जानहूं—जो आयु

का घात का बाह्य निमित्त मिल जाय तत्काल आयु का घात होय ही जाय, ईमें संशय नहीं है, बहुर आयु कर्म की नाई अन्य कर्म भी जो बाह्य निमित्त परिपूर्ण मिल जाय सो उदय हो ही जाय, नीम-भक्षण करेगा ताके तत्काल असाता वेदनीय उदय आवे ही है, मिथी इत्यादिक इष्ट वस्तु भक्षण करे ताके सातावेदनीय उदय आवे ही है तथा वस्त्रादिक आङ्गे आ जायं तो चचु द्वारे मतिज्ञान रुक जाय, कर्ण में डाढा देवें तो कर्ण द्वारे मतिज्ञान रुक जाय, ऐसे ही अन्य इन्द्रियन के द्वारे ज्ञान रुके ही है, नशा आदिक द्रव्यते शुत-ज्ञान रुक जाय है, भैस की दही लस्सन आदिक द्रव्य के भक्षण ते निद्रा की तीव्रता होय ही है, कषायण के कारण मिले कषायण की उदीर्ण होवे ही है, पुरुष का शरीरकं तथा खो का शरीरकू स्पर्शनादिक कर वेद की उदीर्णाते काम की वेदना प्रज्वलित होय ही है, अरति कर्मकू इष्टविवीग, शोक कर्मकू सुपुत्रादिक का मरण इत्यादिक कर्म की उदय उदीर्णादिककू करे ही है। ताते ऐसा तात्पर्य जानना, इस जीव के अनादि का कर्म-संतान चला आवे है, अर समय समय नवीन नवीन बन्ध होय है, समय समय पुरातन कर्म रस देय देय निजरे हैं, सो जैसा बाह्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मिल जाय तैसा उदय में आ जाय, तथा उदीर्ण होय उत्कट रस देवे। अर जो कोऊ या कहै, कर्म करैगा सो होयगा, तो कर्म तो या जीव के सर्व ही पाप पुण्य सत्ता में मौजूद है, जैसा जैसा बाह्य निमित्त प्रबल मिलेगा, तैसा तैसा उदय आवेगा, और जो बाह्य निमित्त कर्म के उदय को कारण नाहीं, तो दीक्षा लेना, शिक्षा देना तपश्चरण करना सत्संगति करना, बालिज्य व्यवहार करना, राज सेवादि करना, खेती करना, औषधि सेवन करना, इत्यादिक सर्व व्यवहार का लोप हो जाय, ताते ऐसी भावनाकू परमागमते निष्ठ्य करना जो आयु कर्म का

परमाणु तो साठ वर्ष पर्यंत समय समय आवा जोग्य निषेकनि  
मैं बांटाने प्राप्त भया होय अर बीच मैं बीस बरस को अवस्था  
ही मैं जो विष शखादिक का निवित्त मिल जाय तो चालीस  
बरस पर्यंत जो कर्म का निषेक समय समय निर्जरता सो  
अन्तर्महूर्त में उदीर्ण मैं प्राप्त होय इकट्ठा नाशनैं प्राप्त होय,  
सो अकाल मरण है ।”

भावाथे इस कथन का यह है कि जिस प्रकार अंगीठी  
में जलते हुए कोयले भर दिये जावें तो साधारण रीति सं  
मन्द-मन्द और पर जलते हुए वे कोयले एक घंटे तक जलते  
रहेंगे, कोयलों के थोड़े थोड़े कण हरदम जल जल कर राख  
होते रहेंगे और एक घंटे में सब हो जलकर ख़त्म हो जायेंगे,  
परन्तु अगर तेज़ हवा चलने लगे या कोई ज़ोर से पंखा  
झलने लगे, या फूंक मारने लगे या उन कोयलों पर मिट्टी का  
तेल डाल दे, तो वे कोयले एकदम भड़क उठेंगे और दस  
पाँच मिनट में ही जलकर राख हो जायेंगे । इस ही प्रकार  
हरएक कर्म का भी बंधा हुआ समय होता है, उस बंधे हुए  
समय तक वह कर्म साधारण रीति से मन्द मन्द गति सं  
अपना असर दिखाता हुआ हरदम कण कण नाश होता रहता  
है, समय पूरा होने तक वह सब ख़त्म हो जाता है, इस  
ही को कर्मों का उदय होना, भड़ जाना या निर्जरा होते  
रहना कहते हैं । परन्तु अगर किसी ज़ोरदार निमित्त कारण  
से कर्म का वह हिस्सा भी जो देर में उदय होता, जल्दी  
उदय में आ जाय तो उसे उदीर्ण कहते हैं । दृष्टिंत रूप  
से किसी को आयु साठ बरस की है लेकिन बीस बरस की  
ही अवस्था में उसको सांप ने काट खाया या किसी ने  
तलबार से सिर काट दिया; जिससे वह मर गया तो यह  
समझना चाहिये कि उसकी बाकी बची हुई चालीस बरस  
की आयु की उदीर्ण होगई, ऐस ही अन्य भी सभी कर्मों

को उदोर्या निमित्त कारणों के मिलने से होती रहती है।

अकाल मृत्यु के इस कथन से यह तो ज़ाहिर ही है कि जिस जीव की आयु ६० वर्ष की थी, उसको उसके आयु कर्म ने ही २० वर्ष की उमर में नहीं मार डाला है, अर्थात् उसके आयु कर्म ने ही ऐसा कारण नहीं मिलाया है, जिससे वह २० वर्ष की ही आयु में मर गया। आयुकर्म का ज़ोर चलता तो वह तो उसको ६० वर्ष तक ज़िन्दा रखता; परन्तु निमित्त कारण के मुकाबले में आयुकर्म की कुछ न चल सकी; तब ही तो ४० वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जब आयु जैसे महा-प्रवल कर्म का यह हाल है तब अन्य कर्मों की तो मजाल ही क्या है, जो निमित्त कारणों का मुकाबला कर सकें—उनको अपना कार्य करने से रोक सकें—तब ही तो कोई ज़बरदस्त आदमी किसी को जान से मार सकता है, लाठी जूते थप्पड़ से भी पीट सकता है, उसका रहने का मकान भी छीन सकता है, धन सम्पत्ति भी लूट सकता है, उसकी खी-पुत्र को भी उठा कर ले जा सकता है, चोरी भी कर सकता है, अन्य भी अनेक कार के उपद्रव मचा सकता है, कर्मों में यह शक्ति नहीं है कि इन उपद्रवों को रोक दें। कर्मों में यह शक्ति होती तो संसार में ऐसे उपद्रव ही क्यों होने पाते? परन्तु संसार में तो बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, जीव ही जीव को खा रहा है, सब ही जीव एक दूसरे से भयभीत होकर अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, चूहे बिज्जी के डर से इधर-उधर छिपते फिरते हैं, बिज्जी कुत्ते से डर कर दुबकती फिरती है, मक्खियों को फंसाने के लिए मकड़ी ने अलग जाल फैला रखा है, चोर डाकू अलग ताक लगा रहे हैं, दूकानदार ग्राहक को लूटने की धुन में हैं और ग्राहक दूकानदार को ही ठगने की फ़िकर में हैं, धोखा, फूरब जाल-साज़ी का बाज़ार गरम हो रहा है, पक को एक हड्डप करना

चाह रहा है। इसी से अपने अपने कर्मों के भरोसे न रहकर सब कोई पूरी पूरी सावधानी के साथ अपने अपने जान माल की रक्षा का प्रबन्ध करता है, औकी पहरा लगाता है, अड़ौसी पड़ौसी और नगर निवासियों का गुट मिलाकर हर कोई एक दूसरे की रक्षा करने के लिये तैयार रहता है, रक्षा के बास्ते ही राज्य का प्रबन्ध किया जाता है, और बड़ा भारी कर राज्य को दिया जाता है।

### कर्मों का काम निमित्त मिलाना नहीं है

ऊपर के शास्त्रीय कथन सं यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि बुरे वा भले किसी भी प्रकार के निमित्त मिलाने का, दुख वा सुखकी सामग्री जुटानेका काम कर्मोंका नहीं है; तब ही तो प्रत्येक मनुष्य कर्मोंके भरोसे न बैठकर अपने सुखकी सामग्री जुटानेके बास्ते रातदिन पुरुषार्थ करता है, खेती, सिपाहीगिरी, कारीगरी, दस्तकारी, दुकानदारी, मिहनत-मज़दूरी, नौकरी-चाकरी आदि सब ही प्रकारके धंधोंमें लगा रह कर खून पसीना एक करता रहता है, यहां तक कि अपने आराम को भी भुला देना पड़ता है और तबही ज्यों त्यों करके अपनी जीवन-यात्रा पूरी करनेके योग्य होता है। जो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता है, कर्मोंकी ही भरोसे पड़ा रहता है वह नालायक समझा जाता है और तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाता है।

उपरके शास्त्रीय कथनमें साफ लिखा है कि कसीने कीमके कड़वे पत्ते चबाये, जिससे उसका मुँह कड़वा होगया तो उसके असातावेदनीय कर्मने उदय होकर उसका जी छुरा कर दिया अर्थात् उसको दुखका अनुभव करादिया और जब उसने मिठाई खाई, जिससे उसका मुँह मीठा हो गया, तो सातावेदनीय कर्मने उदय होकर उसका जी खुश कर दिया, उसको सुखका अनुभव करा दिया। भावार्थ—कड़वी-मीठी

वस्तु का जुटाना कर्मों का काम नहीं है, यह काम तो मनुष्य के स्वर्य अपने पुरुषार्थ का वा दूसरों के द्वारा मिलाये हुए निमित्त का हो है। कर्म का काम तो एकमात्र इतना ही है कि जैसा निमित्त मिले उसके अनुसार जीव को सुखी वा दुखी करदे ।

इस एक ही संसार में अनन्ते जीवों और अनन्ते पुद्धल पदार्थों का निवास है और वे सब अपना २ काम करते रहते हैं, जिससे आपस में उनकी मुठभेड़ होती रहती है—रेल व सराय के मुसाफिरों की तरह संयोग-वियोग होता ही रहता है। एक का कर्म किसी दूसरे को खींच नहीं लाता है और न खींचकर ला ही सकता है ।

कर्मों का काम तो जीव में एक प्रकार का बिगाड़ वा रोग पैदा करते रहना ही है। रोगी को जब रोग के कारण जाड़ा लगता है तो ठंडी हवा बुरी लगती है, परन्तु उसका रोग उसको दुख देने के बास्ते ठंडी हवा नहीं चलाता है, न ठंडी हवा चलाने को रोग में सामर्थ्य ही होती है, रोग का तो सिफ़्र इतना ही काम है कि ठंडी हवा लगे तो रोगी को दुख हो, फिर जब रोगी को तेज़ बुखार चढ़ जाता है तो ठंडी हवा अच्छी ओर गर्म हवा बुरी लगने लगती है, तब भी उसके रोग में यह सामर्थ्य नहीं होती है कि उसको दुख देने के बास्ते गर्म हवा चला दे । इसी प्रकार कर्म भी जीव को सुख-दुख पहुँचाने के बास्ते संसार के जीवों तथा पुद्धगल पदार्थों को खींचकर उसके पास नहीं लाते हैं, उनका तो इतना ही काम है कि उसके अन्दर ऐसा भाव पैदा करदें जिससे वह किसी चीज़ के मिलने से सुख मोगने लगे और किसी से दुख ।

कह के रोगी को मिठाई खाने लाभहुत ही प्रत्यल रच्छा होती है, मिठाई खाते में सुख महाता है और अर्द्ध

( २६ )

से दुख । पित का रोगो खटाई से खुश होता है और मिठाई से दुखी । परन्तु रोगो के रोग का यह काम नहीं है कि वह उसको सुखी वा दुखो करने को कहीं से मिठाई या खटाई लाकर उसे खिलादे । इसो प्रकार कर्म भी जीवों में तरह तरह की विषय और कथाय पैदा करते रहते हैं; परन्तु उनका यह काम नहीं है कि जीव में जैसी विषय या कथाय पैदा की है उसके अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुयें भी इधर उधर से खोच कर उसको लादें ।

क्या बिज्ञी को भूख लगने पर उसके ही शुभ कर्म चूहों को बिल में सं बाहर निकाल कर फिराने लगते हैं, जिससे बिज्ञी उनको आसानी से पकड़ कर खाले, या चूहे के खोटे कर्म ही बिज्ञी को पकड़ कर लाते हैं, जिससे वह चूहों को मार डाले ? यह बात ठीक है तो जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को मार डालता है तो मारने वाला क्यों पकड़ा जाता है और क्यों अपराधी ठहराया जाता है ? उसको तो मरने वाले के खोटे कर्मों ने ही मारने के वास्ते मजबूर किया था, तब उस बेचारे का क्या क़सूर ? परन्तु ऐसा मानने से तो संसार का सब ही व्यवहार गड़बड़ में पड़ जाता है और राज्य का भी कोई प्रबन्ध नहीं रहता है । ऐसी हालत में हिंसक, शिकारी, चोर, डाकू, लुटेरा, धोकेबाज़ ज़ालिम, जार, जालसाज़, बदमाश, आदि कोई भी अपराधी नहीं ठहरता । जो ज़ुल्म किसी पर हुआ है वह सब जब उस ही के कर्मों से हुआ—जब खूद उसी के कर्म चोर डाकू व अन्य किसी ज़ालिम को ज़ुल्म करने के वास्ते खींचकर लाते हैं, तब ज़ुल्म करने वाले का क्या क़सूर ? वह क्यों पकड़ा जावे और क्यों सज़ा पावे ?

इसी प्रकार यह बात किसी तरह भी नहीं मानी जा सकती है कि भला बुरा जो कुछ भी होता है वह सब अपने

ही कर्मों सं होता है, अपने ही कर्म सब प्रकार के निमित्त कारणों को जुटाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है और न पेसा माना ही जा सकता है, कर्म जिसके किये हुवे हों उनका असर उस ही पर हो सकता है, न कि दूसरों पर, कर्म करने वाले पर उसके कर्म चाहे जो ज़ोर चलावें, चाहे! जिस तरह नचावें पर दूसरों पर तो वह कुछ ज़ोर नहीं कर सकते हैं, दूसरों सं तो उलटा सीधा वह कुछ कार्य नहीं करा सकते हैं, कोई पैदा होता है तो अपने कर्मों से, मरता है तो अपने कर्मों से, दूसरों के शुभकर्म न किसी को खींच लाकर उसके यहां पैदा करा सकते हैं और न दूसरों के अशुभ कर्म किसी को भारकर उससे उसका वियोग ही करा सकते हैं। संयोग-वियोग तो सराय के मुसाफिरों के मेले के समान एक ही संसार में रहने के कागण आप से आप ही होना रहता और यह ही संयोग वियोग अच्छा बुरा निमित्त बन जाता है। अच्छे अच्छे निमित्तों के मिलने से जीव का उद्धार हो जाता है, जैसे कि सद्गुरुओं के उपदेश सं व सतशाङ्कों के पढ़ने सं जीव का अनादि कालीन मिथ्यात्व छूटकर सम्यक् अद्वान की प्राप्ति हो जाती है; बीतराग भगवान् का बीतराग मुद्रा को देखकर, बीतराग भगवान् के गुणों को याद करने से, गुणगानकृप स्तुति करने सं और बातरागता का उपदेश सुनने से सम्यक् चारित्र धारण करने का उत्साह पैदा होता है, जिससे सत्पथ पर लगकर जीव अपना कल्याण-कर लेता है—सदा के लिये दुखों से छूट जाता है। जोटे निमित्तों के मिलने से जीव विषय-कषायों में फंसकर अपना सत्यानाश कर लेता है, कर्मों की कड़ी ज़ंजीरों में बन्धकर नरक और तिर्यक्त्वगति के दुख उठाता है।

( २८ )

## अच्छे निमित्तों को मिलाना और खोटे निमित्तों से बचना ही पुरुषार्थ है

अनादि कालसे ही विषय-कथाओं में फंसा हुआ यह जीव विषय-कथाओं का अव्यासी हो रहा है, इसही कारण विषय-कथाओं को मङ्काने वाले निमित्तोंका असर उसपर बहुत जल्द होता है, विषय-कथाय की वातोंके प्रदर्शन करनेके लिये वह हर बद्ध तैयार रहता है। इसके विपरीत विषय-कथाओंको रोकने, दबाने, झाकूमें रखने अथवा सर्वथा छोड़देने की यात उसको यिलकुल ही अनोखी मालूम होती है और इसीसे यह बहुत ही कठिनताके साथ हृदयमें बैठती है। ऐसी हालतमें वड़ी सावधानी के साथ खोटे निमित्तोंसे बचते रहनेकी, उनको अपने पास तक भी न आने देनेकी और पूरी कोशिशके साथ उचम उचम निमित्तोंको मिलाते रहनेकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। खोटे निमित्त जीवके उससे भी अधिक शाश्वत हैं; जितने कि उसके खोटे कर्म क्षयोंकि थे खोटे निमित्त ही तो सोती कथाओंको जगा कर जीवसे महा खोटे करते हैं और उसका सत्यानाश कर डालते हैं। इस ही कारण शाक्षोंमें महामुनियों तकको भी खोटे निमित्तोंसे बचते रहनेकी मारी ताकीद की गई है, जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं।

### भगवती आराधनासार के नमूने—

गाथा १८९—एकान्तमें माता, पुत्री, बहनको देखकर भी काम भड़क उठता है। गाथा १२०९—जैसे कोई समुद्रमें धुसे और भींगे नहीं तो वहाँ आशर्चय है, ऐसे ही यदि कोई विषयोंके स्थानमें रहे और लित न हो तो आशर्चय हो जाता है। गाथा ३३५—हे मुनि ! अग्रि समान और विष समान जो आर्यिकाओं का संग है उसको त्याग। गाथा ३३८—यदि अपनी दुर्दि स्थिर भी हो, तो भी आर्यिकाकी संगति से इस प्रकार विच्छ पिघल जाता है जैसे अमिसे थी। गाथा १०८९—जैसे किसी को शराब पीता देखकर वा शराब की वातें मुनकर शराबी

को शराब पीने की भड़क उत्पन्न हो जाती है, उसही प्रकार मोही पुरुष विषयोंको देखकर वा उनकी बात सुनकर विषयों की अभिलाषा करने लगता है।

### मूलाचार के नमूने

गाथा १५४—संगतिसे ही सम्यक्त्व आदि को शुद्धि बढ़ती है और संगतिसे ही नष्ट होती है, जैसे कि कमलकी संगतिसे पानी सुगंधित हो जाता है, और अमिकी संगतिसे गरम। गाथा ११०—काठ की बनी हुई खीसे भी डरना चाहिये, क्योंकि निमित्त कारण के मिलने से चिन्त चलायमान होता है।

निमित्त कारण के मिलने से कर्म किस तरह भड़क उठते हैं इसका उल्लेख गोम्मट्सार में संज्ञाओं के वर्णन में इस प्रकार मिलता है।

गाथा १३३—जिसके निमित्त से भारी दुःख प्राप्त हो ऐसी बांच्छा को संज्ञा कहते हैं। आहार, भव, मैथुन और परिग्रह यह चार संज्ञायें हैं।

गाथा १३४—आहार के देखने वा याद करने से पेट भरा हुआ न होने पर असातावेदनीय कर्म की उदय उदीरणा होकर आहार की इच्छा पैदा होती है।

गाथा १३५—किसी भयंकर पदार्थ के देखने वा याद करने से शक्ति के कम होने पर भयकर्म की उदय उदीरणा होकर भय उत्पन्न होता है।

गाथा १३६ स्वादिष्ट, गरिष्ठ, रसयुक्त भोजन करने से, कुशील सेवन करने वा याद करने से वेद कर्मकी उदय उदीरणा होकर काम-भोगकी इच्छा होती है।

गाथा १३७—पदार्थोंके देखने वा याद करनेसे लोभ कर्मकी उदय-उदीरणा होकर परिग्रहकी इच्छा होती है।

( ३० )

## निमित्त मिलने पर ही कर्म फल देते हैं

गोमद्वासार के इस कथन का सार यही है कि निमित्त कारणों के मिलने से कर्म उदय में आ जाते हैं, कायाय भड़काने का अपना कार्य करने लग जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझा देने के लिये हम फिर जलते हुए कोयलों से भरी हुई श्रंगीठी का दृष्टान्त देते हैं, जिस तरह श्रंगीठी में भरे हुए कोयले जब तक अच्छी तरह आग नहीं पकड़ लेते हैं तब तक वह श्रंगीठी पर रखी हुई चीज़ को पकाना शुरू नहीं करते हैं, उसी तरह नवीन कर्म भी जब तक पुराने कर्मों से घुलमिल नहीं जाते हैं तब तक वे भी फल देना शुरू नहीं करते हैं, घुलने मिलने में जो सभ्य लगता है उसको आबाधा काल कहते हैं। इसके बाद क्षण क्षण में जिस तरह कोयलों का कुछ कुछ भाग जल-जल कर राख होता रहता है उसी तरह कर्मों का भी एक-एक भाग क्षण क्षण में भड़ता रहता है, इसही को कर्मों की निर्जरा होते रहना कहते हैं।

श्रंगीठी पर कोई चीज़ पकाने को रखी हो, या न रखी हो तो भी श्रंगीठी के कोयलों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जल जलखर राख ज़रूर होता रहेगा। इस ही प्रकार कर्मों को भी अपना भला बुरा फल देने के बास्ते कोई निमित्त मिले या न मिले तो भी क्षण क्षण में उनका एक एक हिस्सा ज़रूर भड़ता रहेगा। फल देने योग्य कोई निमित्त नहीं मिलेगा तो बिना फल दिये ही अर्थात् बिना उदय में आये ही उस हिस्से की निर्जरा होती रहेगी। जिस कर्म की जो स्थिति बर्धी होगी अर्थात् जितने काल तक किसी कर्म के कायाय रहने की मर्यादा होगी उतने काल तक बराबर उस कर्म के एक एक हिस्से की निर्जरा क्षण क्षण में ज़रूर होती रहेगी।

परन्तु जिस प्रकार अंगीठी में मिट्टी का तेल पड़ जाने से वा तेज़ हवा के लगाने से अंगीठी के कोयले एकदम ही भबक उठते हैं, जिससे कोयलों का बहुत सा हिस्सा एकदम जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार किसी भारी निमित्त कारण के मिलने पर कर्मों का भी बहुत बड़ा हिस्सा एकदम भड़क उठता है, कर्मों का जो हिस्सा बहुत देर में उदय में आना था, वह भी उसी दम उदय में आ जाता है। इस ही को उदीरण कहते हैं।

कर्मों का कोई हिस्सा बिना फल दिए भी कैसं भड़ता रहता है, इसको समझने के लिये यह जानना चाहिए कि, साता और असाता अर्थात् सुख देने वाला और दुख देने वाला ये दोनों कर्म एक साथ फल नहीं दे सकते हैं। जिस समय साता का उदय होगा उस समय असाता कर्म बेकार रहेगा और जिस समय असाता का उदय होगा उस समय साता कर्म बेकार रहेगा। परन्तु कर्मों का एक एक हिस्सा तो क्षण क्षण में ज़रूर ही भड़ता रहता है, इस कारण सुख का निमित्त मिलने पर जिस समय साता कर्म फल दे रहा होगा उस समय असाता कर्म बिना फल दिये ही भड़ता रहेगा और जब दुख का निमित्त कारण मिलने पर असाता कर्म फल दे रहा होगा उस समय साता कर्म बिना फल दिए ही भड़ता रहेगा। दोनों कर्म जब एक साथ काम नहीं कर सकते हैं तब एक कर्म को तो ज़रूर ही बेकार रहकर भड़ना पड़ेगा। इस ही तरह रति और अरति अर्थात् व्यार और तिरस्कार हास्य और शोक अर्थात् खुशी और रंज दोनों एक साथ फल नहीं दे सकते हैं—एक समय में एक ही कर्म फल देगा और दूसरे को बिना फल दिये ही भड़ना पड़ेगा। निद्रा कर्म को दखिये कायदे के बमूजिब उसका भी एक एक हिस्सा क्षण क्षण में भड़ता रहता है, परन्तु जब तक

हम सोते हैं तब तक तो बेशक निद्रा कर्म अपना फल देकर ही झड़ता है, लेकिन जितने समय तक हम जागते हैं, उतने समय तक तो निद्रा कर्म को बेकार ही झड़ता रहना पड़ता है। इस ही प्रकार ऋच्य भी अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय कर्म को अपना फल देने का निमित्त मिलता है वह कर्म तो उस समय फल देकर ही खिरता है बाकी जिन कर्मों को निमित्त नहीं मिलता है वे सब बिना फल दिये ही खिरते रहते हैं।

भगवती आराधनासार को संस्कृत टीका में श्री अपराजितसूरि ने गाथा १७५४ के नीचे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 'कर्म उपादान हैं जिनको अपना फल देने के बास्ते द्रव्य द्वेष आदि निमित्त कारणों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आमका बीज मिट्ठी पानी और हवा आदि का निमित्त पाकर ही बूढ़ बनता है और फल देता है, बिना निमित्त मिले हमारे बक्स में रखकर हुआई वैसे ही बोदा होकर निकला हो जाता है। इस ही प्रकार कर्म भी बिना निमित्त मिले कुछ भी फल नहीं दे सकते हैं, यहाँ व्यर्थ ही झड़ जाते हैं। इस ही प्रकार गाथा १२२४ में नीचे लिखा है कि जब द्रव्य द्वेष, काल आदि मिलते हैं तब ही कर्म अपना फल आत्मा को देते हैं।' ऐसा ही गाथा १७४० के नीचे लिखा है। ऐसा ही मूलाराधना टीका में गाथा १७११ के नीचे लिखा है कि द्रव्य द्वेष आदि के आश्रय से कर्म का बोधकाल में आत्मा को फल मिलना कर्म वा उदय होना कहलाता है।

वास्तव में निमित्त कारण ही बलवान है, इसी से महामुनि गृहस्थ्याश्रम को छोड़ आबादी से दूर जंगल में चले जाते हैं। गृहस्थियों की आबादी में रुपी पुरुषों के समूह में रागद्वेष और विषय कथाय का ही बाज़ार गरम

रहता है, हर तरफ़ उन्ही का खेल देखने में आता है और उन्हीं की चर्चा रहती है। ऐसे लोगों के बीच में रह कर परिणामों का शुद्ध रहना—किंचित मात्र भी विचलित न होना—एक प्रकार असम्भव ही है, इसी कारण आत्म-कल्याण के इच्छुक महासुनि विषय कथाय उत्पन्न करने वाले निमित्त कारणों में बचने के वास्ते आबादी ने दूर चले जाते हैं। उनके चले जाने पर आबादी उजड़ नहीं जाती, किन्तु वैसी ही बनी रहती है जैसा कि पहले थी। इससे साफ़ सिद्ध है कि यह आबादी उनके कर्मों की बनाई हुई नहीं थी, किन्तु उनके वास्ते निमित्त कारण ज़रूर थी, तब ही वे उसको छोड़ सके। उनके कर्मों की बनाई हुई होती तो उनके साथ जाती; क्योंकि जिन कर्मों ने उनके वास्ते आबादी का सामान बनाया हो, वे कर्म तो अभी उनके नाश नहीं हुए हैं, ज्यों के त्यों मौजूद हैं।

इस ही प्रकार बस्ती छोड़ कर जिस बन में जाकर वे रहते हैं, वहां भी शेर, भेड़िया आदिक पशु और डांस मच्छर आदि कीड़े-मकौड़े सब पहले से ही बास करते हैं और इन मुनियों के दूसरे बन में चले जाने पर भी उसी तरह बास करते रहेंगे। बन से आये हुये इन मुनियों को परिषह देने के वास्ते उनके कर्मों ने इनको दैदा नहीं कर दिया है। हाँ ! मुनियों के यहां आने पर उनको परिषह पहुँचाने के निमित्त कारण वे ज़रूर बन गये हैं। दिन को कड़ी धूप का पड़ना, रात को ठंडी हवा का चलना, बारिश का बरसना, बरफ़ का पड़ना आदि भी जो कुछ अब हो रहा है वही इन मुनियों कं आने से पहले भी होता था और जब ये मुनि दूसरे बन को चले जायेंगे तब भी होता रहेगा। इससे स्पष्ट सिद्ध हैं परिषह का यह सब सामान भी, मुनियों के कर्मों ने नहीं बनाया है किन्तु उनके यहां आने पर उनके

वास्ते निमित्त कारण ज़रुर होगया है । जो सबे मुनि होते हैं वे इत सब परिषद्दों को समझाव के साथ सहन करते हैं किंचित् मात्र भी दुख अपने मन में नहीं लाते हैं, न अपने ज्ञान से ही विचलित होते हैं । यदि पापी मनुष्य भी उनको दुख देते हैं, अपमान करते हैं वा अन्य प्रकार पीड़ा पहुँचाते हैं तो भी वे क़छु ख़्याल नहीं करते हैं, कोध और मान आदि कर्मों को किंचित्तमात्र भी उभरने नहीं देते हैं, अपने महान पुरुषार्थ से उनको दबाये ही रखते हैं, दबाये ही नहीं, किन्तु सभी प्रकार की कषायों को, सारे ही राग-द्वेष को अथवा सारे ही मोहनीय कर्म को जड़-मूल से नाश करने के ही यत्न में लगे रहते हैं । इस ही कारण वे धन्य हैं और पूजने योग्य हैं ।

खोटे निमित्तों से बचे रहने के वास्ते मुनि विषय कषायों से भरी हुई बस्ती को छोड़कर जंगल में ही नहीं चले जाते हैं बल्कि मुनियों के संघ में रहते हैं, जहां शान वैराग्य के सिवाय अन्य कोई बात ही नहीं होती है । जहां अचार्य महाराज उनकी पूरी लिंगराजी रख कर उन्हें विचलित होने से बचाते रहते हैं ।

### गृहस्थियों का महान पुरुषार्थ

परन्तु गृहस्थियों का मामला बड़ा टेढ़ा है, उनका काम विषय-कषायों से एकदम सुंह मोड़ना नहीं, उनको बिलकुल ही दबा देना वा छोड़ वैठना नहीं, किन्तु उनको अपने आधीन चलाने का ही होता है । उनका यह काम काले नाग खिलाने के समान है, इसी से बहुत ही कठिन और बहुत ही नाज़ुक है । मुनि तो विषय कषायों को ज़हरीले सांप मान कर उनसे दूर भागते हैं, दूर भागकर उनको पाल तक भी नहीं आने देते हैं, परन्तु गृहस्थी स्वयं विषय कषायों को पालते हैं, अर्थात् विषय भोग भी करते हैं और क्रोध-मान-माया-लाभ आदि

सभी प्रकार की कषायों भी करते हैं। सच पूछिये तो यह कषाय ही तो गृहस्थी के हथियार होते हैं। जिनके सहारे वे अपना गृहस्थ चलाते हैं, अपने गृहस्थ के योग्य सब प्रकार की सामग्री जुटाते हैं और जुटी हुई सामग्री को रक्षा करते हैं। परन्तु ये विषय कषाय काले नाग के समान अत्यन्त ज़हरीली और कंहरिसिंह की तरह महा भयानक तथा खून की प्यासी होती हैं, जिनको वश में रखना और अपने अनुसार चलाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिये बड़ी हीशियारी, बड़ी भारी हिम्मत, बड़ा दिलगुर्दा और बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। इस ही कारण ये काम वे ही कर सकते हैं जो महान् साहसी और पूर्ण पुरुषार्थी होते हैं। ज़रा चूके और मारे गये, ज़रा भी किसी ने असावधानी की और ज़हरीले सांपों ने उसको आ दबोचा; फिर भी विषय कषायों का ज़हर चढ़कर वह ऐसा बेहोश वा उन्मत्त हो जाता है कि अपने भले बुरे की कुछ भी सुधि नहीं रहती, फिर तो विषय कषायों में फँसकर वह आप ही अपनी ऐसी दुर्गति बना लेता है, होली का भड़वा बनकर अपने ही हाथों ऐसा ज़लील और ख़वार होता है, ऐसे २ महान् दुख भोगकर मरता है कि जिनका वरणन नहीं किया जा सकता है और मरकर भी सीधा नरक में ही जाकर दम लेता है। इस कारण इस लेख में पुरुषार्थ पर इतना ज़ोर दिया गया है कि जिसके भरोसे गृहस्थी लोग कर्मों को निर्वल मानकर उनके उदय से पैदा हुई विषय कषायों की भड़क को क़ाबू कर अपने अनुकूल चलाने का साहस कर सकें, गृहस्थ-जीवन को उत्तमता से चलाकर आगे को भी शुभगति पावें—कर्मों के उदय से डरकर, हाथ पैर फुलाकर अपने हिम्मत, साहस और पुरुषार्थ को न छोड़ बैठें, डरे सो मरे यही बात हर बङ्ग ध्यान में रखें।

अगर किसी मुसाफ़िर को किसी बहुत ही दंगई धोड़े पर सवार होकर सफ़र करना पड़ जाय और उसके मन में यह बैठ जाय कि इस धोड़े पर मेरा कोई वश नहीं चल सकता है, ऐसा विचार कर वह धोड़े की बाग ढीली छोड़ दे, तो आप ही समझ सकते हैं कि फिर उस

मुस्ताफ़िर की ख़ैर कहाँ ? वह बे-लगाम घोड़ा तो उल्टा सीधा भागकर मुस्ताफ़िर की हड्डी पसली तोड़कर ही दम लेगा । यही हाल गृहस्थी का है, जिसको महा उद्धत विषय-कथायों को भोगते हुए भी अपना गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना होता है । वह भी अगर यह मानले कि जो कुछ होगा वह मेरे कर्मों का ही किया होगा, मेरे किये कुछ न हो सकेगा और ऐसा विचारकर वह अपने विषय-कथायों की बागडोर को बिल्कुल ही ढीली छोड़कर उनको उनके अनुसार ही चलने दे तो उसके तबाह होने में क्या किसी प्रकार का शक या शुब्दाह हो सकता है ? गृहस्थी तो कुशल से तब ही रह सकती है जब अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा करके विषय कथायों की बागडोर को सावधानी के साथ थामकर उनको अपने अनुकूल ही चलाता रहे । यही उसका सदृगृहस्थीपन है, नहीं तो वह नीचातिनीच मनुष्य ही नहीं, किन्तु भयंकर राक्षस तथा हिंसक पशु बनकर अथवा विष्टा के कीड़े के समान गन्दगी में ही पड़ा रहकर अपना जन्म पूरा करेगा और मरकर नरक ही जायेगा । कर्मों को बलवान मानकर उनके आधीन हो जाने का यही तो एकमात्र कुफ्ल है ।

असल में पुरुषार्थ से ही मनुष्य का जीवन है और इसी से उसका मनुष्यत्व है । गृहस्थी का मुख्यकार्य कर्मों से उत्पन्न हुए महा उद्धत विषय-कथायों को पुरुषार्थ के बल से अपने रूप चलाने का ही तो है, और इस कार्य के लिए उसमें सामर्थ्य भी है । अपनी सामर्थ्य के बल पर वह तो इससे भी अधिक ऐसा ऐसा अद्भुत और चमत्कारी पुरुषार्थ कर दिखा रहा है कि स्वर्गों के देवों की बुद्धि भी जिसको देखकर अचम्भा करने लग जाती है । देखो यह पाँच फ़िट का छोटा सा मनुष्य ही तो आग, पानी, हवा, बिजली आदि सृष्टि के भयंकर पदार्थों को वश करके उनसे अपनी इच्छानुसार सर्वप्रकार की सेवायें लेने लग गया है, आग, पानी से भाप बनाकर उससे आटा पिसवाता है, लकड़ी चिरवाता है, पत्थर कुड़वाता है, हज़ारों मनुष्य और लाखों मन बोझ लादकर रेलगाड़ी रिंचवाता है—रिंचवाता ही नहीं, हवा के समान तेज़ी से भगाता है । क्या कोई भयंकर से भयंकर राक्षस ऐसा

( ३७ )

बलवान हो सकता है जैसे ये भाष से बनाये ऐंजिन होते हैं, जिनको यह साधारण सा मनुष्य अपने अनुकूल हांकता है। यह सब उसके पुरुषार्थ की ही तो महिमा है। मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से किञ्चितमात्र भी असावधान तथा विचलित होने देख यही मनुष्य का बनाया ऐंजिन ऐसा भयंकर होजाना है कि पल की पल में हजारों मनुष्यों को यमद्वार पहुँचा देता है।

धन्य है हे मनुष्य ! तेरे पुरुषार्थ को, धन्य है तेरे माहस को, जो ऐसी भौमि की विजय की दशा में आपने कैसी सेवा ले ॥

परं

इस् ।

स्विनै ५

१२ नहाज़

इस तरह उड़ाये फिरता ह जस दबतागण वरमान में बैट आकाश की संर करते फिर रहे हां। आकाश की बड़कता विजली को झाचू करके उनसे भी आटा पिसवाना, पम्पा चलाना, कुओं से पानी निकलवाना, रेलगाड़ी चलाना, आदि सब ही काम लेना शुरु कर दिया है। गङ्गा यमुना जैसी बड़ी बड़ी भयकर नादयों को झाचू करके उनसे भी आटा पिसवाता ह और घंटों की सचाई के वारत गाव २ लिये फिरता है। धरती की छाती वांधकर उसम सं पाना निकालना तो बच्चों का ही खेल होगया है। वह तो उसको छाती खूब गहरी चारकर उसम से तल, कोयला, लोहा, पीतल, सोना, चादी आदि अनेक पदार्थ खोच लाता है। निःसन्देह मनुष्य का पुरुषार्थ अपरभ्यार है जो महा विशालकाय हाथी को पकड़ लाकर उनपर सवारी करता है और महा भयकर सिंहों को पकड़ लाकर उनसे सरकस का तमाशा कराता है।

• ग़रज कहा तक गीत गाया जाय, पुरुषार्थ का महात्म्य तो जिह्वा से वर्णन ही नहीं किया जा सकता है और न किसी से उसकी उपमा ही दी जा सकती है। हां, इतना और भी समझ लेना ज़रूरी

( ३८ )

है कि जो पुरुषार्थ करते हैं वे मालिक बनते हैं और जो पुरुषों  
होकर अपने कर्मों के ही भरोसे बैठे रहते हैं वे गुलाम बन जाते हैं।  
पशुओं के समान समझे जाते हैं।

एक बात और भी कह देने की है और वह यह कि मनु  
को वस्तो में चोर, डाकू, ज़ालिम, हथयारे, राहस लोभी, मानी विषयों  
सब ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, मांस शराब व्यभिचार आदि के सभी  
प्रकार के कुब्बलनों की दुकानें लगी रहती हैं, और चारों तरफ़ विषय  
कथाओं में छलने के ही प्रलोभन नज़र आते हैं। मुनि महाराज तो  
ऐसे भवकर संयोग में अपने परिणामों को संभाले रखना अपनी सामर्थ्य  
से काहुं समझ वस्ती को छोड़ बन को चले जाते हैं, परन्तु  
सद्गृहस्थ बेचारा कहाँ चला जाय? उसको तो इन सब प्रकारों के  
मनुष्यों और खोटे प्रलोभनों में ही रहना होता है। इन ही के  
बीच में वह इस प्रकार रहता है जैसे प्रानों में कमल। इस सद्गृहस्थ  
सद्गृहस्थ का पुरुषार्थ मुनियों के पुरुषार्थ से भी कहीं अधिक प्रशंसनीय  
और बलवान् है, जिससे पुरुषार्थ की महान् सामर्थ्य का पूरा पूरा  
अन्दाज़ा हो जाता है। धन्य है वे सद्गृहस्थ जो इस पुरुषार्थ का  
सहारा लेकर कर्मों का भी मुक़ावला करते हैं और निमित्त कारणों  
का भी अपने ऊपर क़ाबू नहीं चलने देते हैं, कायर और अकर्मण्य  
बनकर इस प्रकार नहीं लुढ़कते फिरते हैं, जैसे पत्थर वा लकड़ी के  
टुकड़े नदी के भारी बहाव में बहते और लुढ़कते फिरा करते हैं।

हमारी भी यही भावना है कि हम लकड़ी पत्थर की तरह  
निर्जीव न बनकर पुरुषार्थी बनें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक  
कर दिखावें।

“बहुत रुलो संसार में, वश प्रमाद के होय।

अब इन तज उद्यम करी, जातें सब सुख होय ॥”

“भारय भरोसे जे रहें, ते पाढ़े पछतांय।

काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हँसाय ॥”



